



## प्रेस नोट थाना शाहगंज जनपद आगरा

थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध नशीले पदार्थ सहित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 1.83 किलोग्राम अवैध गांजा व 861 ग्राम चरस सहित अन्य सामान बरामद...

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी, लूट, डकैती, आदि अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक नगर आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शाहगंज को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 06.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग में व्यस्त थे। इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी की कि पूर्व में वायरल ओडियो जिसमें मनोज उर्फ डिम्मी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपनी जान पहचान की धोस जमाकर बात करते हुए अपनी अवैध गांजा चरस बिक्री की बात कर रहा था। इस समय राधे वाली गली के पास अवैध गाँजा बेच रहा है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है।

### ➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँची। गली में खड़े अभियुक्त को चारों ओर से घेर कर एक बारगी दबिश देकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01.83 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 260/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### ➤ अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी:-

दिनांक 06.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु वीआईपी रोड पर मुगल पान वाले के पास चैकिंग में की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि 03 तीन व्यक्ति रेलवे पुल के नीचे एक मोटर साइकिल पैशन प्रो पर अवैध नशीला पदार्थ के साथ खड़े हैं। मोटर साइकिल चोरी की लग रही है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुँचकर, अभियुक्तों को चारों ओर से घेर कर एक बारगी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।





## ➤ तीनों अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा भागने का कारण पूछने पर बताया गया कि हमारे पास चरस है जिसे बेचने के लिये हम लोग यहाँ खड़े हुये थे और आने जाने वाले व्यक्तियों को चरस बेच रहे थे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में बताया गया कि यह मोटर साइकिल हमने करीब 01 माह पहले बैंक ऑफ इण्डिया अर्जुन नगर के सामने से चोरी की थी। चरस का वजन कराने पर 861 ग्राम पाया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 261/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 414 भादवि व मु0अ0सं0 262/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

## ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मनोज उर्फ डिम्पी गुप्ता पुत्र राम मोहन गुप्ता निवासी राधे वाली गली शिवनगर जगनेर रोड थाना शाहगंज जनपद आगरा
02. विकास पुत्र मवासीराम निवासी ब्रुश वाली गली ईदगाह थाना शाहगंज जनपद आगरा।
03. संतोष पुत्र मनकू राम निवासी निकाारी कालोनी नगला बुद्धा थाना मलपुरा शाहगंज जनपद आगरा।
04. पुलण्डी बाबा उर्फ अमर नाथ पुत्र केवलराम निवासी निकाारी कालोनी नगला बुद्धा शाहगंज जनपद आगरा।

## ➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 1.83 किलोग्राम अवैध गांजा।
02. 570 रुपये।
03. 861 ग्राम अवैध चरस।
04. एक अदद चोरी की मोटर साइकिल।

## ➤ आपराधिक इतिहास-

### ● मनोज उर्फ डिम्पी-

01. मु0अ0सं0 487/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 551/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा।





03. मु0अ0सं0 260/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

● विकास -

01. मु0अ0सं0 261/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 414 भादवि थाना शाहगंज जनपद आगरा

02. मु0अ0सं0 262/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

● संतोष-

01. मु0अ0सं0 261/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 414 भादवि थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

● पुलण्डी बाबा उर्फ अमर नाथ-

01. मु0अ0सं0 261/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 414 भादवि थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. श्री संजय रेड्डी क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी जनपद आगरा ।

02. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह राघव थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

03. उ0नि0 अवनीत मान थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

04. उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह चौहान थाना शाहगंज आगरा ।

05. है0का0 विजय थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

06. का0 3068 प्रशान्त तेवतिया थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

07. कां0 प्रदीप कुमार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

08. कां0 अजय कुमार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।



मीडिया सेल जनपद आगरा।

